



# JAGSONPAL PHARMACEUTICALS LIMITED

**Corporate Office:** Plot No. 412-415, Nimai Tower, 3rd Floor, Phase-IV, Udyog Vihar,  
Sector-18, Gurugram -122015, Haryana (India)

**Ph.:** +91 124 4406710; **E-mail:** info@jagsonpal.com; **Website:** www.jagsonpal.com

**CIN. :** L74899DL1978PLC009181



A CSR Initiative

July 28, 2025

The Department of Corporate Services- Listing <b>BSE Ltd,</b> Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street Mumbai - 400 001 <b>Scrip Code: 507789</b>	The Department of Corporate Services- Listing <b>National Stock Exchange of India Ltd</b> Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051 <b>Symbol:</b> <b>JAGSNPHARM</b>
---	---

**Subject: Extract of Unaudited Financial Results – Copy of Newspaper Advertisement**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of advertisement published on July 28, 2025, in 'Business Standard' (English) and 'Business Standard' (Hindi) newspaper providing Extracts of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2025.

We request you to take the above on record.

Thanking you,

For Jagsonpal Pharmaceuticals Limited

Pratham Rawal

Company Secretary & Compliance officer

**Regd. Office:** Innov8, 3rd Floor, Plot No. 211, Okhla Phase-3, New Delhi-110020 (India)  
**Mumbai Office:** 13-14, Unit 3B, Phoenix Paragon Plaza, Kurla West, Mumbai, Maharashtra- 400070



# New elevator code may raise prices by 2-5%: Kone India MD

DEEPAK PATEL & HIMANSHI BHARDWAJ New Delhi, 27 July

The new lift safety code may lead to a 2-5 per cent price rise, which is minimal and absorbable by customers, Amit Gossain, managing director of Kone Elevator India, said, emphasising that all the states must implement it without delay before the deadline ends in December.

Currently, 15 states and one Union Territory have adopted the lift safety code issued by the Bureau of Indian Standards (BIS).

The BIS introduced the new code — IS 17900 Part 1 and Part 2 — in 2022, replacing earlier standards like IS 14665 and IS 15785 and bringing India's elevator safety framework in line with global norms. These norms will come in force from December 22 this year.

The introduction of IS 17900 is seen as a much-needed upgrade to India's elevator safety landscape. It aligns with international standards such as EN 81-20 and EN 81-50, and also introduces clearer provisions for emergency communication systems, overload protection, fire and earthquake resilience, and more rigorous inspection and maintenance protocols.

However, BIS codes are not automatically enforceable across the country. For them to be legally binding, individual states must



“THE PRICE INCREASE IS MINIMAL AND ABSORBABLE BY CUSTOMERS”

Amit Gossain  
Managing director,  
Kone Elevator India

issue notifications or amend their respective Lift Acts. While early adoption by 15 states and Jammu & Kashmir is a promising development, several key states are yet to make the switch.

“The safety code should be implemented by all the states,” Gossain said in an interview to *Business Standard*. The anticipated cost increase due to compliance with the new code is relatively low and manageable for customers. “There is a concern... but it would be minimal. The price increase would be between 2-5 per cent on average for the top five established players. The customers can bear this,” he stated.

The top five players — Kone, Otis, Schindler, Johnson Lifts, and TK Elevator — together account for 85 per cent of the elev-

ator and escalator market in India in volume terms. For local or smaller manufacturers who have not been following any standards, the price hike would be considerably higher, Gossain noted.

Finnish company Kone, for its part, has already begun the transition. “We saw a four per cent increase in price due to this upgrade,” he said, referring to one of its products that has already been brought up to the IS 17900 standard and is now being sold in India.

Gossain assured that all Kone products will be upgraded to meet the new code by the end of this year, well ahead of the 2025 deadline. He pointed out that the new code mandates three significant safety features that contribute to the cost increase.

These include unintended car movement protection, which prevents the elevator from moving when doors are open; ascending car overspeed protection, which addresses the risk of the car overspeeding upwards due to control failure; and refuge spaces at the pit and car top for technician safety.

India's elevator and escalator market is one of the fastest-growing globally. In 2024, between 85,000 and 90,000 units were sold, 95 per cent of which were elevators. Among elevators sold, 65 per cent were for the residential segment, 25 per cent for commercial buildings, and 10 per cent for infrastructure, such as airports and metros. In contrast, 95 per cent of escalators were sold for commercial use, with the rest used in infrastructure projects.

Kone currently defines 40 Indian cities — including Nagpur, Guwahati, and Shillong — as Tier-I markets. These Tier-I cities account for about 60 per cent of its sales today, while the remaining 40 per cent comes from Tier-II cities. However, this trend is expected to reverse over the next five years, with Tier-II cities contributing 60 per cent of the company's sales as demand for elevators spreads beyond major cities, he noted. Gossain said the growth outlook for India is very strong, with the market expected to expand in double digits over the next five years.

# Hotels seek to check in frequent flyers to boost business

ROSHNI SHEKHAR Mumbai, 27 July

With Indians constantly on the move, hotel chains are deploying a common strategy: Tap into the growing number of frequent air travellers.

Radisson Hotel Group recently launched Radisson Flights in India, partnering with Etraveli Group, a global flight technology provider. Radisson Flights, an integrated booking platform, will offer a 20 per cent discount on hotel stays with every flight booking. The group is rolling out a similar service in 14 other countries. Sarovar Hotels hastied up with FLY91, a regional carrier, to offer discounts to guests at select places in the country. In April, Accor Hotels and low-cost carrier IndiGo announced they will collaborate for their customer loyalty programmes. Wyndham Hotels and Resorts, which has a partnership with Pegasus Airlines, is exploring ways to provide similar offers to its customers in India.

Such initiatives intend to provide “frictionless travel experiences” to travellers, according to hospitality industry executives. Domestic airlines from January to June 2025 carried 85.174 million passengers, up 7.34 per cent from the previous year (79.348 million), according to the Directorate General of Civil Aviation's monthly report. On a monthly basis, the number was up 3.02 per cent in June.

“India is witnessing an accelerated demand for frictionless travel experiences, and Radisson Flights is our way of meeting that demand head on,” said

Nikhil Sharma, managing director and chief operating officer, South Asia, Radisson Hotel Group, in a press release. “As a brand that has consistently led with innovation and guest-centricity, we are proud to offer travellers in India the convenience of booking their flights and accommodation under one trusted umbrella. This launch is part of our broader effort to build an integrated ecosystem that meets the evolving needs of the Indian consumer and reinforces our position as a digitally forward hospitality brand.”

Radisson, a global brand that has more than 200 hotels in India, said its “integrated offering” reflects the company's strategy to serve as more than just a stay provider but an enabler of “complete, connected travel experiences”.

Sarovar Hotels' collaboration with FLY91 aims to promote regional tourism and “create a seamless, value-driven experience for guests”, according to a press release. FLY91 passengers will receive an exclusive 20 per cent discount on room bookings and food and beverages at Sarovar Hotels in Goa, Sindhudurg, Pune, Bengaluru, Hyderabad, and Solapur. Sarovar Hotel guests can get a 10 per cent discount on FLY91 base fares for flights operating in sectors where the airline operates. The offer, which can be redeemed as well, will be accessible on the two companies' websites. “With the rebound of domestic travel and increased interest in short-haul getaways, this partnership allows us to capture demand more effectively

by offering guests seamless travel and stay benefits. The initiative aligns with our broader objective of promoting last-mile destinations and strengthening brand presence in Tier-II and -III cities,” said Akshay Thusoo, senior vice-president, commercial, Sarovar Hotels.

Thusoo said the initiative is in its early stages, but the company expects a boost of 5 per cent to 7 per cent at its hotels in select locations over the next two quarters. The locations — Goa, Sindhudurg, Pune, Bengaluru, Hyderabad, and Solapur — were selected based on FLY91's operational network and the hotel company's footprint there. As FLY91 expands its route map, Sarovar Hotels is open to extending the partnership to additional cities, Thusoo said.

“The initiative is expected to drive incremental business from FLY91 passengers, particularly leisure travellers and corporate guests who are increasingly seeking convenient, bundled travel and stay experiences.”

IndiGo BluChip and Accor's loyalty programme are expected to launch their strategic loyalty partnership in Q4 2025 (calendar year), said the hotel company in an email. The partnership is expected to enable customers of both companies to earn and redeem points at hotels and flights in India and abroad. Wyndham Hotels and Resorts said its partnership with Pegasus Airlines has seen strong traction in key international markets.

“In June 2025, we joined hands with Pegasus Airlines to offer Wyndham Rewards members even greater value,” said Rahool Macarius, market managing director (Eurasia), Wyndham Hotels and Resorts.

**Retail Asset Centre:** Axis Bank Ltd. Gigaplex, NPC-1, 3rd Floor MIDC, Airoli Knowledge Park Muglisian Road Airoli Navi Mumbai-400708. Also at Axis Bank Ltd., Axis House, Tower T-2, 2nd Floor, I-14, Sector-128, Noida Expressway, Jaypee Greens Wishtown, Noida (U.P.)-201301. Also at: Axis Bank Ltd. Small Business Banking, East of Kailash, New Delhi- 110065. **Corporate Office:** Axis House, Block-B, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai-400025. **Registered Office:** 'Trishul', 3rd floor, opposite Samartheshwar Temple, Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006.

**POSSESSION NOTICE UNDER SARFAESI ACT 2002**

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of Axis Bank Ltd. under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notice upon the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said Notice. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Axis Bank Ltd. The Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) attentions are invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name Of Applicant/ Co- Borrower And Guarantor Name /Address:	1. Mr. Deepak Aggarwal S/o. Mr. Ashok Aggarwal, R/o. B/2106, Shalimar Bagh, Delhi-110088. Also At- Mr. Deepak Aggarwal S/o. Mr. Ashok Aggarwal, A-12, Block-A, Derawal Nagar, Delhi-110009. 2. M/s. Durga Beads Centre Through Its Proprietor Mr. Deepak Aggarwal, Ground Floor, 2158, Dhoobi Wara Kinari Bazar, Chandani Chowk, Central Delhi, Delhi-110006. Also At- M/s. Durga Beads Centre A-12, Block-A, Derawal Nagar, Delhi-110009. 3. Mrs. Shailja Aggarwal W/o. Mr. Deepak Aggarwal, R/o. B/2106, Shalimar Bagh, Delhi-110088. Also At- Mrs. Shailja Aggarwal W/o. Mr. Deepak Aggarwal A-12, Block-A, Derawal Nagar, Delhi-110009.	
<b>Description of Property :</b> Entire Two & Half Storeyed Built Up Freehold Residential Property Bearing No.12, (bottom To Top With Its Roof Terrace Rights And Further Construction Rights Upto Sky), Built On Land Area Measuring 203.34 Square Yards Or Say 170.01 Square Meters, In Block-A, As Shown In The Layout Plan Of The Dera Ismail Khan Co-operative House Building Society Ltd., Colson Presently Known As "derawal Nagar", Delhi-110009, And Bounded As Under- East-As Per Title Deed, West-As Per Title Deed, South-As Per Title Deed, North-As Per Title Deed.		
<b>Date of Demand / Notice :</b> 02-May-2025	<b>Date Of Symbolic Possession :</b> 25-July-2025	<b>Amount in Demand Notice :</b> Rs. 5,97,22,572.34/- (Rupees Five Crore Ninety Seven Lakh Twenty Two Thousand Five Hundred Seventy Two and Thirty Four Paise Only)
<b>Name Of Applicant/ Co- Borrower And Guarantor Name /Address:</b> 1. Mr. Rajbir Sharma S/o. Om Prakash Sharma, R/o. H. No- 960, Sector-6, Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana- 124507. Also At- Mr. Rajbir Sharma S/o. Om Prakash Sharma, A-67, Vill- New Grain Market, Najazgarh, Delhi-110043. 2. M/s. Bhagwan Dass Ramesh Chandra Jain Through Its Proprietor Mr. Rajbir Sharma, A-67, Ground Floor, Vill- New Grain Market, Najazgarh, Delhi-110043. 3. Mrs. Rajwati W/o. Mr. Rajbir Sharma, R/o. H. No- 960, Sector-6, Bahadurgarh, Jhajjar, Haryana- 124507.		
<b>Description of Property :</b> H No 960- P, Sector 6, Urbane State Huda, Bahadurgarh, District Jhajjar, Bahadurgarh, Haryana And Bounded As Under- East-As per Title Deed, West- As per Title Deed, South-As per Title Deed, North-As per Title Deed.		
<b>Date of Demand / Notice :</b> 02-May-2025	<b>Date Of Symbolic Possession :</b> 25-July-2025	<b>Amount in Demand Notice :</b> Rs. 5,10,50,202.40/- (Rupees Five Crore Ten Lakh Fifty Thousand Two Hundred Two and Forty Paise Only)

The above-mentioned Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Mortgagor(s) are hereby given a 30 days' Notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

**Date: 28-July-2025, Place: Noida** **Authorized Officer, Axis Bank Ltd.**

**AARCON FACILITIES LIMITED**  
(Formerly known as R. B. Gupta Financials Limited)  
(CIN: L65910GJ1993PLC019057)

**Regd. Off:** 401, 402, Earth Complex, Opp. Vaccine Institute, Old Padra Road, Vadodara, Gujarat, India, 390015. Ph. : 0265-2336277, Email : rbgfin@gmail.com

**FINAL REMINDER-CUM-FORFEITURE NOTICE TO THE HOLDER OF PARTLY PAID-UP EQUITY SHARES (LAST DATE OF PAYMENT-SATURDAY, AUGUST 30, 2025)**

Notice is hereby given that the Company has dispatched 3<sup>rd</sup> and Final Reminder-cum-Forfeiture Notice ("Notice") dated July 26, 2025, to the holders of partly paid-up equity shares of Aarcon Facilities Limited (Formerly known as R. B. Gupta Financials Limited) ("the Company") who had not paid allotment money due on partly paid equity shares in respect of equity shares of Rs. 10/- each issued and allotted in public issue at issue price of Rs. 10/- each in pursuance of prospectus dated April 11, 1996 ("Public Issue"), requesting them to pay outstanding allotment money as per the notice sent to them without interest thereon on or before **Saturday, August 30, 2025**. Payment for outstanding allotment money is to be sent through Demand Draft in favour of "AARCON FACILITIES LIMITED CALL MONEY ACCOUNT", payable at Vadodara and send the same to the Registered office of the Company at 401, 402, Earth Complex, Opp. Vaccine Institute, Old Padra Road, Vadodara, Gujarat, India, 390015. The Company does not accept the responsibility of Loss in transit. Please mention your Folio No. on the back side of Demand Draft. Alternatively, payment for outstanding allotment money can be paid through NEFT/RTGS in the Bank account as per details given hereunder:

Name of Bank Account	AARCON FACILITIES LIMITED CALL MONEY ACCOUNT
Bank & Branch	AXIS BANK, AKOTA BRANCH, VADODARA- 390020
Type of account	CURRENT
Bank Account Number	925020022538545
IFSC	UTIB0001144

The holders of partly paid-up equity shares are requested to make the payment of the allotment money due on or before **Saturday, August 30, 2025**. In case of non-receipt of the aforesaid notice by the holders of partly paid-up equity shares due to change in address or any reason, the said shareholders are requested to pay allotment money due on partly paid-up equity shares held by them and obtain Payment slip by sending email to the Company at email id : [rbgfin@gmail.com](mailto:rbgfin@gmail.com) and send the said Payment slip duly filled up to the Company along with relevant partly paid-up share certificates for making endorsement for fully paid-up equity shares at the Registered office of the Company. The holders of the partly paid up equity shares who have lost or misplaced their share certificates are requested to pay allotment money due on their partly paid shares and send Payment slip to the Registered office of the Company at "Aarcon Facilities Limited", 401, 402, Earth Complex, Opp. Vaccine Institute, Old Padra Road, Vadodara, Vadodara, Gujarat, India, 390015, and a signed request letter to the office of the Registrar and Transfer Agent - "Cameo Corporate Services Limited" ("RTA"), situated at Subramanian Building, No.1 Club House Road, Chennai 600 002 requesting to share the procedure for issue of duplicate share certificate(s).

The Company will not be liable for any delay in receipt of amount due and reserves the right to reject such delayed receipts.

**Please note that, the partly paid-up equity shares in respect of which the allotment money due as aforesaid is not received by the Company on or before Saturday, August 30, 2025, will be forfeited (including the amount already paid thereon), without any further notice/reminder in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the Articles of Association of the Company and the Prospectus.**

**For Aarcon Facilities Limited,**  
Date : July 27, 2025  
Place : Vadodara  
(Formerly known as R. B. Gupta Financials Limited)  
Sd/-  
Bharat Ramchandra Gupta  
Managing Director. (DIN: 00547897)

**MACHINO PLASTICS LTD.**  
Regd. Office: Plot No. 3, Maruli J. V. Complex, Gurugram, Haryana -122015  
CIN : L25209HR2003PLC035034 Email: [admin@machino.com](mailto:admin@machino.com)

**Transfer of Equity Shares of the Company relating to Unclaimed Dividend to IEPF Authority**

The Notice is being given to the Equity Shareholders of the company pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the investor Education and Protection Fund Authority [accounting, Audit, Transfer and Refund] Rules, 2016, and amendments thereto. As per the aforesaid provisions, all equity shares in respect of which dividend has remained unclaimed or unpaid for a period of seven consecutive years or more shall be transferred by the Company to the IEPF Authority.

Pursuant to the IEPF Rules, the company has already sent Individual communication to the concerned shareholders at their registered addresses whose shares are liable to be transferred to the Demat account of IEPF Authority.

Further, the company has also uploaded complete details of the concerned shareholders who have not claimed/encashed the dividend for the financial year 2017-2018 and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority on its website at <https://machino.com/>, advising them to claim their unclaimed dividend's to avoid transfer of their shares to the Demat Account of the IEPF Authority.

Shareholders can claim their unclaimed dividend by writing to the Company / Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e. Alankit Assignment Limited by providing Investor Service Request Form ISR - 1, Form ISR - 2 and Form No. SH 13 (Nomination Form) duly filled as per the instructions stated therein along with the supporting documents including original cancelled cheque stating the name of account holder in case of physical securities. The Investor Request Forms are available at the website of our RTA at <https://alankitassignments.com/>. Copy of the client master list is to be submitted in case of securities in electronic form, Payment will be made to the Bank Account registered against the demat account.

**For shares held in Physical form** – New shares certificate (s) in lieu of the original share certificate (s) will be issued and transferred in favour of the IEPF Authority on completion of necessary formalities. The original share certificate(s) which stand registered in the name of the shareholder will be deemed cancelled and non-negotiable.

**For shares held in Electronic form** – The Company shall inform the Depositories to execute the corporate action and debit the shares lying in your demat account and transfer such shares in favour of the IEPF Authority

The Shareholders are requested to note that in case the company does not receive any valid claim within three month of date mentioned below, the company shall initiate the necessary action to transfer the shares to the IEPF DEMAT Account without any further notice to shareholder.

After the shares are transferred to IEPF authority all the benefits/rights shall remain suspended and accrue to IEPF authority after the transfer of shares to IEPF subject to reclaim/refund made by the shareholder as prescribed by law.

In case the concerned shareholder wishes to claim the shares/dividend after its transfer to IEPF, a separate application must be made to the IEPF Authority in Form IEPF-5 as prescribed under the Rules and the same is available at IEPF website i.e. [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in).

The concerned shareholders may contact the Company at its Registered Office or RTA (Alankit):

Company's Address	RTA
Plot No. 3, Maruti Joint-Venture Complex, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurugram, Haryana - 122015; Phone No.: 0124-2340806	Alankit Assignments Limited, 4E/2, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055; Phone No.: 011-42541234

Alternatively, any shareholder can seek clarification from Registrar and Share Transfer Agent (RTA) Further details are available on the Company website at [www.machino.com](http://www.machino.com) and may also be accessed on the website of the Stock Exchange at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).

**For MACHINO PLASTICS LIMITED** Sd/-  
Date: 24th July, 2025  
Place: Gurugram  
**Aditya Jindal**  
Chairman cum Managing Director

**STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED**  
**Bokaro Steel Plant**  
**Bokaro - 827001, Jharkhand, India**

**EXPRESSION OF INTEREST (EOI)**  
**For Efficient Utilization of Vacant Quarters, Vacation of Unauthorized Occupants, and Ensuring Safety of Quarters**  
**EOI Reference No: BSL/TA-L&E/01** **Date: 26/07/2025**

SAIL-BSL (TA DEPARTMENT) invites Expressions of Interest (EOI) from experienced and capable parties/organizations to assist in:

- a. Protection of vacant quarters in custody of TA department and securing the same.
- b. Facilitating the vacation of unauthorized occupants.

1. Objective : The primary objective is to ensure that residential quarters are Efficiently allocated and utilized, Free from unauthorized occupation and Secure.

2. Scope of Work : The scope of work includes (but is not limited) to the following :

- a. Quarters are to be made free through eviction of unauthorised occupants and thereby secured till they are allotted as per official procedure and rules of the company.
- b. Monitoring and Reporting: Provide periodic reports on occupancy status, progress in eviction.
- c. Safety and Security: Provide basic security measures (e.g., locks, fencing, surveillance if required) to prevent encroachments or damage.

3. Eligibility Criteria: As per Scope of Work.

Interested parties must meet the following minimum criteria:-

- a. Minimum three (03) years of experience in property management, housing administration, facility maintenance, or a related field.
- b. Ability to deploy skilled personnel and necessary infrastructure.
- c. Financially sound and legally compliant.

4. Submission Requirements: Interested parties should submit:

- a. Letter of Interest on official letterhead, Profile of the organization, including years of experience and relevant projects.
- b. Approach and methodology to execute the scope of work.
- c. Copies of relevant licenses, registration, and PAN/GST (as applicable) and experience of having successfully completed similar nature work by the bidder during last 3years.

6. EOI Submission Details:

- a. Last date of submission: 07/08/2025
- b. Mode of submission : [Email / Physical Submission – specify address or email ID]
- c. Contact person for queries: Name:- Rajesh Kumar  
Design: DGM (L&E)  
Email: [rajesh.k@vail.in](mailto:rajesh.k@vail.in)  
Mobile No. : 8986873173

7. General Conditions:

- a. Submission of EOI does not confer any right to selection.
- b. SAIL- BSL (TA DEPARTMENT) reserves the right to reject any or all EOIs without assigning any reason.
- c. Interested parties are requested to come prepared after due study of the system proposed. The date of presentation of the proposals from the parties has been fixed on 11/08/2025 (Monday) at 11.00 A.M. at ED (HR) Conference Room, Admin Building, Ispat Bhavan, BSL, Bokaro.
- d. The interested parties have to submit their consent of participation on or before 09/08/2025 by 5.30 PM. The parties/agencies will not be allowed without prior permission of consent letter.
- e. All the cost and expenses that are incurred while responding to this EOI shall be borne by the respective parties / respondents.

**N.B.:-**  
**The EOI is intended for shortlisting of suitable party. Only shortlisted parties will be invited to submit a detailed proposal in response to a Request for Proposal (RFP) to be issued subsequently**

Registered Office : Ispat Bhawan, Lodhi Road, New Delhi 110 003  
Corporate Identity Number : L27109DL1973GOI006454, Website : [www.sail.co.in](http://www.sail.co.in)

**There's a little bit of SAIL in everybody's life**

**Jagsonpal Pharmaceuticals Ltd** [www.jagsonpal.com](http://www.jagsonpal.com) 26 July, 2025

**Financial Results Q1FY'26**

Sales ↑23.1% EBITDA ↑24.1% Net Profit ↑102.6%

CSR Initiative

Since 1978: Health, Science & Service

**JAGSONPAL PHARMACEUTICALS LIMITED**

CIN NO:- L74899DL1978PLC009181

Registered Office: Innov8, 3rd Floor, Plot No. 211, Okhla Phase-3, New Delhi - 110020

Website: [www.jagsonpal.com](http://www.jagsonpal.com), E-mail: [cs@jagsonpal.com](mailto:cs@jagsonpal.com)

**Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended June 30, 2025 (Rs. in Million)**

Sr. No.	Particulars	Quarter ended			Year Ended
		30 June (Unaudited)	31 March (Audited)	30 June (Unaudited)	31 March (Audited)
		2025	2025	2024	2025
1	Total Income from Operations	784.37	613.30	628.83	2,769.06
2	Profit / (Loss) before tax and exceptional Items	144.31	89.20	103.95	501.72
3	Profit / (Loss) before tax and after exceptional Items	144.31	87.08	71.10	698.59
4	Profit/Loss for the period after tax	107.95	65.83	53.29	553.61
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)	108.52	62.93	52.81	555.80
6	Paid up Equity Share Capital (Face value Rs. 2/- per share)	133.06	132.80	132.29	132.80
7	Earnings per Share				
	Basic (Rs)	1.60	0.98	0.78	8.26
	Diluted (Rs)	1.58	0.98	0.77	8.22

**Notes :**

1. The above information has been extracted from the detailed Unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2025 which have been reviewed by the Audit Committee and approved by the board of directors and filled with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligation and disclosures requirement) Regulations 2015.
2. The full format of the financial results for the quarter ended June 30, 2025 are available on the stock exchanges websites ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)), ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)), and Company's website ([www.jagsonpal.com](http://www.jagsonpal.com)).

By Order Of The Board  
For Jagsonpal Pharmaceuticals Limited  
Sd/-  
Manish Gupta  
Managing Director

Date: July 26, 2025  
Place- Gurugram

**Rainbow Children's Hospital**  
CIN: L85110TG1998PLC029914  
Registered Office : 8-2-120/103/1, Survey No. 403, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana-500034  
Tel: +91 40 4969 2244, E-mail : [companysecretary@rainbowhospitals.in](mailto:companysecretary@rainbowhospitals.in)

**STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025**

Based on the recommendations of the Audit Committee, the Board of Directors of Rainbow Children's Medicare Limited ("the Company") at their meeting held on 26 July 2025 have approved the unaudited standalone and consolidated financial results for the quarter ended 30 June 2025.

The aforementioned financial results are available on the stock exchange websites, [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.rainbowhospitals.in](http://www.rainbowhospitals.in) and can be accessed by the QR code provided below.

for and on behalf of the Board of Directors of  
**Rainbow Children's Medicare Limited**  
Sd/-  
**Dr. Ramesh Kancharla**  
Chairman and Managing Director  
DIN: 00212270

**Date: 26 July 2025**  
**Place: Hyderabad**



